

तुरंत रिलीज के लिए

**ब्रैम्पटन ट्रांज़िट, 2 जुलाई से बसों पर अधिक सवारियां लेगा
गैर-मेडिकल मास्क जरूरी होंगे, किराए की अदायगी और बसों पर आगे के दरवाजे
से चढ़ना दुबारा बहाल किया जाएगा**

ब्रैम्पटन, ओन्टैरियो (29 जून, 2020) – पील पब्लिक हेल्थ (Peel Public Health) की सलाह से और सिटी ऑफ ब्रैम्पटन को दुबारा खोलने और बहाली योजना के हिस्से के तौर पर, वीरवार, 2 जुलाई से शुरू करते हुए, ब्रैम्पटन ट्रांज़िट (Brampton Transit), बसों पर अधिक सवारियां लेगा।

सिटी निवासियों को याद दिलाती है कि, पील पब्लिक हेल्थ और ओन्टैरियो सरकार (Government of Ontario) की, पब्लिक ट्रांज़िट पर मास्क पहनने की पुरज़ोर सलाह का पालन करते हुए, ब्रैम्पटन ट्रांज़िट की सवारियों और ऑपरेटर्स के लिए, 2 जुलाई से बसों पर और टर्मिनल्स पर, गैर-मेडिकल मास्क (कपड़े के बने साधारण मास्क) पहनना जरूरी होगा। किराए की अदायगी और आगे के दरवाजे से चढ़ना (फ्रंट डोर बोर्डिंग) भी दुबारा बहाल किया जाएगा।

बसों पर अधिक सवारियां लेना

ब्रैम्पटन ट्रांज़िट, 2 जुलाई से शुरू करते हुए अपनी बसों में अधिक सवारियां लेगा। सवारियों के लिए उसी दिन से शुरू करते हुए, गैर-मेडिकल मास्क पहनना जरूरी होगा। प्रत्येक बस पर अनुमति दी गई सवारियों के लिए अधिक से अधिक संख्या इस प्रकार होगी:

- 40 फुट बस: 35 व्यक्ति
- 60 फुट बस: 55 व्यक्ति

यह बढ़ी हुई क्षमता, पूरी सीटों पर सवारियों लेने के बराबर है। सवारियां बैठ या खड़ी हो सकती हैं। यह महत्वपूर्ण है कि पब्लिक ट्रांज़िट पर सफर करते समय, सवारियां हमेशा मास्क पहनकर रखें क्योंकि इससे ब्रैम्पटन ट्रांज़िट, अधिक सवारियों को सेवा दे पाएगा। मास्क पहनने के नियम का पालन न करने के परिणामस्वरूप, ब्रैम्पटन ट्रांज़िट को पहले की तरह आधी सीटों पर सवारियों लेना वापस शुरू करना पड़ेगा। 2 जुलाई तक बसों पर आधी सीटों पर ही सवारियां लेना जारी रहेगा।

छोटे बच्चों और जोखिम पर होने वाले लोगों के लिए छूटें

हालांकि मास्क जरूरी होंगे, लेकिन इसमें छूटें भी हैं। दो साल से कम उम्र के बच्चों या जो लोग अन्य मेडिकल स्थितियों के कारण मास्क नहीं पहन सकते, उन्हें मास्क पहनने से छूट दी जाएगी, लेकिन उन्हें अन्य यात्रियों से कम से कम दो मीटर की शारीरिक दूरी कायम रखने का अनुरोध किया जाता है।

ब्रैम्पटन ट्रांज़िट, समुदाय को स्वस्थ और सुरक्षित रखने पर ध्या केंद्रित कर रहा है। ट्रांज़िट की सवारियों को सलाह दी जाती है कि वे सही समझ प्रयोग करें, सुरक्षा संबंधी उपायों का पालन करें और मास्क पहनें, यदि वे पहन सकते हैं।

केवल मास्क ही कोविड-19 (COVID-19) को फैलने से नहीं रोकेंगे, लेकिन ये आपके आसपास के लोगों को सुरक्षित रखने में मदद कर सकते हैं। मास्क पहनकर भी, यह महत्वपूर्ण है कि जब भी संभव हो, लगातार हाथों की पूरी तरह से सफाई की जाए और शारीरिक दूरी कायम रखी जाए। यदि आप बीमार हैं, तो कोविड-19 के असेसमेंट सेंटर (मूल्यांकन केंद्र) या मोबाइल साइट पल टेस्ट करवाएं और घर में ही रहें, ट्रांज़िट पर सफर करने से बचें।

गैर-मेडिकल मास्कों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, पील पब्लिक हेल्थ की [वेबसाइट \(website\)](#) और ओनटैरियो सरकार की [वेबसाइट \(website\)](#) पर जाएं। इस जानकारी में शामिल है, आपके गैर-मेडिकल मास्क को अच्छी तरह से कैसे पहनना है, फिट करना है, हटाना और साफ करना है।

किराए का भुगतान

2 जुलाई से शुरू करते हुए, ब्रैम्पटन ट्रांज़िट की सभी बसों पर किराए का भुगतान करना जरूरी होगा। सवारियों को सलाह दी जाती है कि वे बिना संपर्क के भुगतान करने के लिए, अपना किराया देने हेतु अपना PRESTO कार्ड प्रयोग करें। जो सवारियां अभी भी नकद भुगतान का प्रयोग करती हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे ग्राहक सेवा (Customer Service) काउंटर से PRESTO कार्ड प्राप्त करें। केवल सीमित समय के लिए, PRESTO कार्ड की \$6 की फीस से छूट दी जा रही है – एक सवारी को एक कार्ड दिया जाएगा।

बुजुर्गों को पहुंच योग्य ट्रांज़िट प्रदान करना, सिटी की मुख्य प्राथमिकता है। कोविड-19 के प्रभाव को देखते हुए, सारे एक्टिव (सक्रिय) सीनियर आई.डी. (ID) कार्डों पर, अनिश्चित समय तक एक्सपायरी डेट (अवधि समाप्त होने की तारीख) से छूट दी गई है।

ट्रिनिटी कॉमन टर्मिनल (Trinity Common Terminal) की बिल्डिंग को छोड़कर, ट्रांज़िट के टर्मिनल्स पर ग्राहक काउंटर खुल गए हैं।

2020 के प्रस्तावित किराया बदलाव, अगले नोटिस तक स्थगित कर दिए गए हैं।

बसों पर आगे के दरवाजे से चढ़ना

ब्रैम्पटन ट्रांज़िट, 2 जुलाई से शुरू करते हुए, सभी सवारियों को बसों पर आगे के दरवाजे से चढ़ने की अनुमति देगा। सवारियों को पिछले दरवाजों से उतरना होगा।

जिन सवारियों के लिए पीछे के दरवाजे से उतरना मुश्किल है, वे आगे के दरवाजे से उतरना जारी रख सकती हैं।

कोविड-19 से सुरक्षा संबंधी उपाय

अधिक बार सफाई और सैनिटाइज़ करने का शेड्यूल पहले की तरह ही प्रभावी रहेगा। हर 48 घंटों में सभी ठोस सतहों, ऑपरेटर कम्पार्टमेंट्स और सीटों को रोगाणु मुक्त करना, ब्रैम्पटन ट्रांज़िट का लक्ष्य है। इस समय अधिकतर बसों को हर 24 घंटों में सैनिटाइज़ किया जा रहा है। जिन फैसिलिटीज और टर्मिनल्स की ठोस सतहें हैं, उन्हें रोज़ाना पोंछा जा रहा है और सैनिटाइज़ किया जा रहा है।

सिटी का, सवारियों से अनुरोध है कि वे मास्क पहनकर भी, बसों में, टर्मिनल्स पर और बस स्टॉप्स पर लगातार शारीरिक दूरी कायम रखें। सवारियों को यह भी याद दिलाया जाता है कि वे सफर करते समय हैंड सैनिटाइज़र या वाइप्स जैसे खुद के रोगाणु नाशक पदार्थ साथ में रखें, बार-बार अपने हाथ धोएं और खांसते या छींकते समय मुंह को अपनी कोहनी से ढक लें। यदि आप बीमार हैं, तो कृपया ट्रांज़िट पर सफर करने से परहेज करें, अपनी निकटतम कोविड-19 असेसमेंट साइट पर टेस्ट करवाएं और पब्लिक हेल्थ के निर्देशों का पालन करें।

पील पब्लिक हेल्थ की सलाह से, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन हर किसी को गैर-मेडिकल मास्क पहनने की सलाह देती है, खास करके उन जगहों पर, जहां शारीरिक दूरी रखना मुश्किल हो सकता है। सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, जोखिमों का लगातार निरीक्षण करने के लिए पील पब्लिक हेल्थ और ब्रैम्पटन एमरजेंसी मैनेजमेंट ऑफिस (Brampton Emergency Management Office) में अपने साझेदारों के साथ मिलकर काम कर रही है। नियमित अपडेट्स के लिए www.brampton.ca/covid19 पर जाएं और सेवा अपडेट्स के लिए bramptontransit.com पर जाएं अथवा Twitter पर @bramptontransit को फॉलो करें। सवाल सीधे ब्रैम्पटन ट्रांज़िट के संपर्क केंद्र (Contact Centre) से 905.874.2999 पर पूछे जा सकते हैं।

हवाले

“सिटी को दुबारा खोलने और बहाली योजना के हिस्से के तौर पर, 2 जुलाई से शुरू करते हुए, ब्रैम्पटन ट्रांज़िट में कई बदलाव किए जा रहे हैं। बसों पर अधिक सवारियां ली जाएंगी, गैर-मेडिकल मास्क पहनना या चेहरे को ढकना जरूरी होगा और किराए की अदायगी और आगे के दरवाजे से चढ़ना दुबारा बहाल किया जाएगा। ये बदलाव, यह सुनिश्चित करने हुए समुदाय को स्वस्थ और सुरक्षित रखेंगे कि ब्रैम्पटन में, हमारे पास प्रभावी और भरोसेमंद ट्रांज़िट सेवा है।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“मुझे यकीन है कि सवारियां, गैर-मेडिकल मास्क पहनकर, यदि वे पहन सकती हैं, पूरी तरह सफाई रखकर, खुद का, ट्रांज़िट ऑपरेटर्स का और एक-दूसरे का सम्मान करेंगी क्योंकि हम ब्रैम्पटन ट्रांज़िट पर अधिक सवारियां लेना शुरू कर रहे हैं। हम सवारियों को गतिशील रख रहे हैं, और इकट्ठे मिलकर, हम कोविड-19 को फैलने को जोखिम को कम कर सकते हैं।”

- रोएना सैंटोस (Rowena Santos), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 1 और 5; चेयर, कम्युनिटी सर्विसिज, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“रीओपनिंग एंड रिकवरी ग्रुप के द्वारा, सिटी को दुबारा खोलने के लिए एक व्यापक और सोचे-समझे दृष्टिकोण को सुनिश्चित करने के लिए, हम लगातार समुदाय के साथ अर्थपूर्ण विचारविमर्श कर रहे हैं। यह फैसला, पील पब्लिक की सलाह के साथ और सवारियों के प्राथमिकता देते रहने के लिए किया गया है।”

- *मार्टिन मेडेइरोस (Martin Medeiros), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 3 और 4; लीड, रीओपनिंग एंड रिकवरी वर्किंग ग्रुप, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

“ब्रैम्पटन ट्रांज़िट, हमारे समुदाय को स्वस्थ और सुरक्षित रखने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। हम अधिक सवारियां लेने में सक्षम हैं क्योंकि उसी दिन से शुरू करते हुए, गैर-मेडिकल मास्क पहनना जरूरी होगा। सवारियों – कृपया हमारी ट्रांज़िट सेवा को स्वस्थ, सुरक्षित, प्रभावी और भरोसेमंद रखने में अपनी भूमिका निभाएं।”

- *डेविड बैरिंक (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 650,000 लोगों और 70,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। www.brampton.ca पर और जानें।

मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca